

दिनांक 22 अप्रैल, 2017 को सायं 06:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, बुल्गारिया एम्बेसी के एम्बेसडर एवं उपस्थित प्रतिनिधि मंडल के साथ संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया |

मर्चेट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री पदम् कुमार बुल्गेरियन एम्बेसी के एम्बेसडर मिस्टर पेटको डेयकोव, उपस्थित प्रतिनिधि मंडल मिस्टर व्लादिमीर हिस्तोव, मिसेस डायना हार्लोवा, मिस्टर परवेज कुमार गांधी एवं मर्चेट्स चैम्बर के सदस्यगणों तथा विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित नव उद्यमियों का स्वागत करते हुये कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है बुल्गारिया से उपस्थित जनों ने हमें समय दिया तथा हम उनकी यात्रा का सम्मान करते हैं एवं महत्त्व देते हैं

बुल्गेरियन एम्बेसी के एम्बेसडर मिस्टर पेटको डेयकोव ने भारत एवं बुल्गेरिया के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए सूचित किया कि दोनों देश (भारत एवं बुल्गेरिया) परस्पर योगा एवं हैंडीक्राफ्ट्स के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी साझेदारी करते हैं, जिसमें योगा एवं हैंडीक्राफ्ट्स अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं बुल्गेरिया में काफी प्रसिद्ध भी है / बुल्गेरिया में इंटरनेशनल योगा डे का भी सैलीब्रेशन होता है जो बुल्गेरिया के लोगों के मध्य काफी प्रचलित है / बुल्गेरिया के 50 विश्वविद्यालयों में से 15 में अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है उन्होंने भारत को निवेश करने के लिये आमंत्रित करते हुए सूचित किया कि बुल्गेरिया में फ्लैट टैक्स रेट 10% है ε

मिस्टर पेटको डेयकोव ने कानपुर-भ्रमण पर सूचित किया कि आज दिनांक 22 अप्रैल, 2017 शाम 07:00 होटल लैंडमार्क, कानपुर में TED BED, जो कि मेट्रेस का ब्रांड है, का उदघाटन समारोह है / यह ब्रांड बुल्गेरियन कंपनी से समबन्ध रखता है और यह भारत में अपने आउटलेट्स स्थापित स्थापित करने के लिए अग्रसर है एवं मिस्टर परवेज कुमार गांधी के इंडियन फर्नीचर प्रोडक्ट्स, जुआरी बेडिंग से TED BED ब्रांड के प्रमोशन एवं मार्केटिंग के लिए सम्पर्क स्थापित किया गया है

मिस्टर गांधी ने बताया कि वह के.के. बिरला ग्रुप के समबन्ध रखते हैं जो कि सरोज कुमार पोद्दार ग्रुप के अंतर्गत कार्यरत है, यह ग्रुप फर्टिलाइज़र, वेगन्स तथा अन्य क्षेत्रों में स्थापित है /

मिस्टर डेयकोव ने बताया कि बुल्गेरिया में निवेश संबंधी जानकारी के लिए मर्चेट्स चैम्बर का कोई भी सदस्य उनसे नवीं दिल्ली बुल्गेरियन एम्बेसी में सम्पर्क कर सकता है / उन्होंने यह भी सूचित किया कि बुल्गेरिया की जी.डी.पी. में टूरिज्म क्षेत्र का योगदान 15% है /

स्मृति-चिन्ह द्वारा बुल्गेरिया के एम्बेसडर एवं उनकी टीम को मर्चेट्स चैम्बर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य गणमान्यों द्वारा सम्मानित किया गया /

सत्र में उपस्थित गणमान्य: श्री बी.के. लाहोटी, एम.सी.यू.पी., डॉ. जे.एन. गुप्ता, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री प्रतीक जैन, श्री बी.एम.गर्ग, श्री ए.के. सिन्हा, सचिव, एम.सी.यू.पी., श्री अविनाश चतुर्वेदी एवं अन्य /